



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 518]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 19, 1983/कार्तिक 28, 1905

No. 518]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 19, 1983/KARTIKA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to the Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)
अधिसूचनाएँ

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 18th November, 1983

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1983

का. आ. 826(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बैंक ऑफ इंडिया के अनुरोध पर 19 नवम्बर, 1983 से महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी सिंदूरुर्ग ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी तथा सिंदूरुर्ग के जिलों की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[सं. एफ. 1-5/83-आर. आर. की. (1)]

S.O. 826(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government, on being requested so to do by Bank of India, establishes, with effect from the 19th November, 1983 a Regional Rural Bank in the State of Maharashtra under the name of Ratnagiri Sindudurg Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the Districts of Ratnagiri and Sindudurg in the State of Maharashtra

[No. F. 1-5/83-RRB (I)]

का.आ. 827(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा रत्नागिरी सिंदुदुर्ग ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक आफ इण्डिया से परामर्श करके, रत्नागिरी को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर रत्नागिरी सिंदुदुर्ग ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं. एफ. 1-5/83-आर.आर.बी. (2)]

S.O. 827(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of India by which Ratnagiri Sindudurg Gramin Bank has been sponsored, specifies Ratnagiri as the place where Ratnagiri Sindudurg Gramin Bank shall have its head Office

[No. F. 1-5/83-RRB (II)]

का. आ. 828(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (3) के अनुसार में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, रत्नागिरी सिंदुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरी को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1973 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. एफ. 1-5/83-आर.आर.बी. (3)]

S.O. 828(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Ratnagiri Sindudurg Gramin Bank, Ratnagiri being an institution established under sub-section (1) of Section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-5/83-RRB (III)]

का. आ. 829(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री वामन मंगेश कुलकर्णी को रत्नागिरी सिंदुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरी का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 19-11-1983 से प्रारम्भ होकर 30-11-1986 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री वामन मंगेश कुलकर्णी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं. एफ. 1-5/83-आर.आर.बी. (4)]

अशोक चन्द्र, संयुक्त सचिव

S.O. 829(E).—In exercise of the powers conferred by section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri Waman Mangesh Kulkarni as Chairman of the Ratnagiri Sindudurg Gramin Bank, Ratnagiri and specifies the period commencing on the 19-11-1983 and ending with 30-11-1986 as the period for which the said Shri Waman Mangesh Kulkarni shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-5/83-RRB (IV)]
ASHOK CHANDRA, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

(ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष)

अधिसचना

बम्बई, 19 नवम्बर, 1983

का. आ. 830(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसार में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये अर्थात् :—

“रत्नागिरी सिंदुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरी (महाराष्ट्र)”

[आर. पी. सी. डी. संख्या 273 आई. एन. सी. एल. /311-83]

टी. एन. अनन्तराम अय्यर, कार्यापालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Rural Planning and Credit Department)

NOTIFICATION

Bombay, the 19th November, 1983

S.O. 830(E).—In pursuance of clause (a) sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby direct the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Ratnagiri Sindudurg Gramin Bank, Ratnagiri “(Maharashtra)”.

[RPCD No. 273/INCL/311-83]

T. N. ANANTHARAM IYER, Executive Director